

शामली दर्पण



VOLUME 38

**01/May/2019 TO
30/May/2019**

ई-पत्रिका



WELCOME TO SHAMLI

पार्क में महापुरुषों की मूर्तियां




स्वच्छ सर्वेक्षण 2019



(गुरु रवींद्रनाथ का जन्मदिन)

साहित्य को देश से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक नई पहचान दिलाने वाले पहले नोबल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की आज 158वीं जयंती है। यूं तो उनका जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में जोरासंको हवेली में हुआ था। लेकिन बांग्ला पंचांग के अनुसार वैशाख की 25 तारीख को उनका जन्म हुआ था, जो इस बार 9 मई को पड़ी है। वह सिर्फ एक कवि ही नहीं बल्कि संगीतकार, चित्रकार और लेखक भी थे। चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी रोचक बातें:

- रवींद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले शख्स थे जिनकी रचनाओं को दो देशों में राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। इनमें एक है भारत का जन गण मन... और दूसरा है बांग्लादेश का अमार शोनार बांग्ला...। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने हजारों गीतों की रचना की है।
- टैगोर की कही कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। वह कहा करते थे कि केवल पानी पर खड़े होकर या उसे देखकर समुद्र पार नहीं किया जाता। इसे पार करने के लिए कदम बढ़ाना होगा। विश्वास को जीवन में अहम मानते हुए वह कहते थे कि ये (विश्वास) वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में प्रकाश का अनुभव कराता है और गाने लगता है।
- टैगोर की लोकप्रिय किताबों में से एक 'द किंग ऑफ द डार्क चेंबर' भी है। जिसकी बीते साल अमेरिका में सात सौ डॉलर (करीब 45 हजार रुपये) में नीलामी हुई है। ये किताब 1916 में मैकमिनल कंपनी ने प्रकाशित की थी, जो टैगोर के हिंदी में लिखे नाटक 'राजा' का अंग्रेजी अनुवाद है। इस नाटक की कहानी एक रहस्यमय राजा से जुड़ी है।
- पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में कला और साहित्य का एक अलग रूप दिखता था। इससे टैगोर का गहरा नाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां उनके पिता ने 1863 में ब्रह्मो समाज आश्रम और विद्यालय के रूप में एक आश्रम की स्थापना की थी। फिर यहीं पर रवींद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की।




(बुद्ध पूर्णिमा)

बुद्धा पूर्णिमा का त्यौहार बौद्ध धर्म के लोगो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। गौतम बुद्धा का बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व है। कहा जाता है की उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्तापना करि थी। इस त्यौहार का महत्व इतना इसलिए भी है क्युकी यह पर्व वैशाख पूर्णिमा वाले दिन आता है। कहा जाता है की इसी दिन गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था और इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। बुद्धा जयंती के इस पर्व पर आज के इस पोस्ट में हम आपके लिए बुद्धा पूर्णिमा विशेष, बुद्धा पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना, गौतम बुद्धा जयंती विशेष, आदि की जानकारी देंगे जिसे आप अपने व्हाट्सप्प या फेसबुक पर शेयर कर सकते है।

इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा यानी की वैशाख पूर्णिमा 19 मई के दिन पद रही है | इस दिन सोमवार का दिन है। जिसके लिए हम पेश कर रहे हैं हैप्पी बुद्धा जयंती, Gautam Buddha Jayanti Wishes hindi, बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती, Buddha Day, vesak 2019 wishes.

सुख और दुःख जीवन के रंग है
सब सही है अगर श्रद्धा संग है
भगवान बुद्ध के ध्यान में मलंग हैं
हैप्पी बुद्ध जयंती कहने का ये नया ढंग है
बुद्ध जयंती की शुभकामनाये

दिल में नेक ख्याल हो
और होंठो पर सच्चे बोल
बुद्ध जयंती के अवसर पर
आपको शांति मिले अनमोल
हैप्पी बुद्ध जयंती



प्रेम और सत्य की ताकत
जानने के बावजूद लोग
घृणा और असत्य का
सहारा लेकर जीवन
जीते हैं और पूरे
जीवन दुखी रहते हैं.

बुद्ध जयंती की हार्दिक
शुभकामनायें





स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्ति के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु एक मार्मिक अपील

जागो युवा जागो स्वच्छ भारत है तुम्हारा अधिकार लेकिन पहले उठाओं पहले कर्तव्य का भार

बापू का नारा, स्वच्छ भारत हैं बनाना \

भूमण्डल में गूंजे गान \

मेरा भारत देश महान \ \

फिर गूजेंगा का बापू का गान \

स्वच्छ रहे भारत का हर ग्राम \ \

कूड़ा करकट का हैं अम्बार \

सबको मिलकर करना हैं साफ \ \

अपने कर्मों को सुधारे \

नदियों को पवित्र बनायें \ \

स्वच्छता उन्नति का आधार हैं \

लम्बे जीवन का सार हैं \ \

स्वच्छता आकर्षण का आधार हैं \

स्वच्छता मोक्ष का द्वार भी हैं \ \

बच्चे बूढ़े, और जवान हैं ,

सहयोग सेतु में बंध एक साथ \

संकल्प करे फिर एक बार \

स्वच्छ रखेगा भारत को हर हाथ \ \

अच्छे दिनों को लाना हैं \

भारत का मान बढ़ाना हैं \ \

स्वच्छ भारत मिशन शामली

श्री सुरेंद्र सिंह

श्रीमती अंजना बंसल

(अधिकांश अधिकारी)

(अध्यक्ष)

Contact Us



: www.fageosystems.in



: info@fageosystems.in

Tel/Fax : 01204349756